

-:प्रेस नोट दिनांक 17.06.2021:-

थाना नवाबगंज जनपद बरेली।

थाना नवाबगंज #bareillypolice द्वारा तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर , कब्जे से अवैध तमन्चे व कारतूस व खुखरी बरामद।

विगत कई दिनों से मुझ प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज को सूचना प्राप्त हो रही थी कि कस्बा नवाबगंज के मोहल्ला भट्टा पहलवान का रहने वाला श्रीपाल पुत्र रामचरन जो मूल रूप से डंडिया नजमुलनिशा थाना क्योलड़िया जिला बरेली का रहने वाला है जिसके लड़के विजयपाल की वर्ष 2018 में प्रेमप्रसंग के चलते रमेश चन्द्र पुत्र नत्थूलाल निवासी डंडिया नजमुलनिशा थाना क्योलड़िया जिला बरेली ने अपने भाई व साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी अपने लड़के की हत्या का बदला लेने के लिए श्रीपाल अपने साथियों के साथ मिलकर रमेशचन्द्र की हत्या का षडयन्त्र रचकर उसे हत्या करने की फिराक में है। यदि सतर्कता बरती जाये तो एक जघन्य घटना टाली जा सकती है। इसी क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के निर्देशन में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नवाबगंज महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना हाजा से एक टीम का गठन कर सूचना के सम्बन्ध में गहराई से छानबीन कर षडयन्त्रकारियों को पकड़े हेतु लगाया गया था दिनांक 16.06.2021 को रात्रि चैकिंग के दौरान लगायी गयी पुलिस टीम को पुनः मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि रामलीला ग्राउण्ड में रंगमंच स्थल में श्रीपाल अपने साथियों के साथ मिलकर रमेशचन्द्र की हत्या करने की योजना बना रहे है अगर जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते है मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा रामलीला ग्राउण्ड कस्बा नवाबगंज से अभियुक्त 1.रामपाल उर्फ नन्हे पुत्र कुन्दलाल निवासी ग्राम नरई थाना हाफिजगंज बरेली उम्र करीब 41 वर्ष, 2. भंवरपाल पुत्र बुद्धसेन निवासी ग्राम सुनौर थाना हाफिजगंज जिला बरेली उम्र करीब 45 वर्ष, 3. श्रीपाल पुत्र रामचरन निवासी डंडिया नजमुलनिशा थाना क्योलड़िया जिला बरेली हाल निवासी आदर्शनगर/भट्टा पहलवान कस्बा नवाबगंज जिला बरेली को गिरफ्तार किये गये गिरफ्तार किये गये अभियुक्त रामपाल से एक तमन्चा 315 बोर नाजायज मय 02 अदद कारतूस 315 बोर, अभियुक्त भंवरपाल से एक तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज व अभियुक्त श्रीपाल के कब्जे से एक अदद खुखरी नाजायज बरामद हुए। **जिसके सम्बन्ध में थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 243/2021 धारा 3/25 A ACT व मु0अ0सं0 244/21 धारा 3/25 A ACT व मु0अ0सं0 245/2021 धारा 4/25 आयुध अधि0** पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के बाद जब उनसे गहराई से पूछताछ की गयी तो पता चला कि श्रीपाल पुत्र रामचरन निवासी डंडिया नजमुलनिशा थाना क्योलड़िया जिला बरेली हाल निवासी आदर्शनगर/भट्टा पहलवान कस्बा नवाबगंज जिला बरेली ने अपने बेटे विजयपाल की हत्या का बदला लेने के लिए 1,50,000 रुपये की सुपारी रामपाल उर्फ नन्हे व भंवरपाल उपरोक्त को देने की बात बतायी जिसमें से 82,000 रुपये अबतक एडवान्स दे चुका था शेष हत्या के बाद देना था अभियुक्तगणों ने अपने बयानों में उक्त बात को स्वीकार भी किया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1.रामपाल उर्फ नन्हे पुत्र कुन्दलाल निवासी ग्राम नरई थाना हाफिजगंज बरेली उम्र करीब 41 वर्ष।
- 2.भंवरपाल पुत्र बुद्धसेन निवासी ग्राम सुनौर थाना हाफिजगंज जिला बरेली उम्र करीब 45 वर्ष।
- 3.श्रीपाल पुत्र रामचरन निवासी डंडिया नजमुलनिशा थाना क्योलड़िया जिला बरेली हाल निवासी आदर्शनगर/भट्टा पहलवान कस्बा नवाबगंज जिला बरेली उम्र 50 वर्ष।

आपराधिक इतिहास:-

- 1.**रामपाल उर्फ नन्हे पुत्र कुन्दलाल निवासी ग्राम नरई थाना हाफिजगंज बरेली उम्र करीब 41 वर्ष,** मु0अ0सं0 0244/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना नवाबगंज जिला बरेली।
2. **भंवरपाल पुत्र बुद्धसेन निवासी ग्राम सुनौर थाना हाफिजगंज जिला बरेली उम्र करीब 45 वर्ष,** मु0अ0सं0 0245/2021 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना नवाबगंज जिला बरेली।
3. **श्रीपाल पुत्र रामचरन निवासी डंडिया नजमुलनिशा थाना क्योलड़िया जिला बरेली हाल निवासी आदर्शनगर/भट्टा पहलवान कस्बा नवाबगंज जिला बरेली** मु0अ0सं0 0246/2021 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना नवाबगंज जिला बरेली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अभियुक्त रामपाल के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर नाजायज मय 02 कारतूस 315 बोर
2. अभियुक्त भंवरपाल के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर नाजायज मय 02 कारतूस 315 बोर
3. अभियुक्त श्रीपाल के कब्जे से 01 अदद खुखरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सिद्धान्त शर्मा थाना नवाबगंज जिला बरेली
2. उ0नि0 श्री सचिन शर्मा थाना नवाबगंज जिला बरेली
3. का0 2864 हरिओम सैनी थाना नवाबगंज जिला बरेली
4. का0 172 तरुण कुमार, थाना नवाबगंज जिला बरेली
5. का0 3035 विक्रान्त मलिक थाना नवाबगंज जिला बरेली
6. हे0का0 193 उग्रवीर सिंह थाना नवाबगंज जिला बरेली (चालक)

(धनन्जय सिंह)
प्रभारी निरीक्षक
थाना नवाबगंज, बरेली।

